

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 14—जून 20, 2014 (ज्येष्ठ 24, 1936)

No. 24]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14—JUNE 20, 2014 (JYAISTHA 24, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)

दिल्ली—110001, दिनांक 21 मई 2014

सं. ए—19011/115/14—यू.आई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.), योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए—12013/21/(डी.डी./हैडक्वार्टर)/11—यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 22.04.2014 तथा प्रधान निदेशक (वाणिज्य लेखा परीक्षा) व पदेन सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड, चेन्नई के कार्यालय के रिलीविंग ऑर्डर सं. पी.डी.सी.ए./प्रशा.—VII/7—24/2014—15/11 दिनांक 29.04.2014 के अनुसरण में श्री के. दिलीप राज ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन बैंड रुपए 15,600—39,100/— + 6,600 रु. ग्रेड पे में, दिनांक 12.05.2014 (पूर्वाह्न) से उपनिदेशक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेश होने तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन. के. शर्मा, उपनिदेशक (स्था.)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 23 मई 2014

सं. ए—19011/116/14—यू.आई.डी.ए.आई.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2011—ई. ओ. (एस. एम.—I) दिनांक 01.05.2014 के तहत सूचित केबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति के अनुमोदन तथा महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3-2/2010/प्रशा. दिनांक 16 मई 2014 के अनुसरण में, डॉ. श्रीरंजन, आई.ए.एस. (असम-मेघालय : 85) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड रुपए 37,400—67,000/— (पे बैंड-4) + 10,000/— रु. ग्रेड पे, में दिनांक 19 मई 2014 (पूर्वाह्न) से उपमहानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनकी यह तैनाती 18.05.2016 तक या अगले आदेश होने तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एस. डी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (स्था.)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2014

सं. 12025/1/2009-प्रशा. III--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), मुख्यालय के श्री एम.एम.एस. रावत को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) मुख्यालय में 13.12.2013 से आगे तीन वर्ष की अवधि यथा 14.12.2016 तक अथवा आगामी आदेशों तक उप निदेशक (प्रशा.) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

ए.के. मिश्रा, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2014

शुद्धि पत्र

सं. ए-12025/1/2009-प्रशा-III--इस मंत्रालय के दिनांक 28.04.2014 के समसंख्यक आदेश में भूलवश 14.12.2016 टंकित किया गया है। इसे कृपया '12.12.2016' पढ़ा जाए।

असुविधा के लिए खेद है।

एस. के. राय, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 मई 2014

सं. ए-19/जी-ए/111—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 14/3/2012—ईओ (एमएम I) दिनांक 25.09.2012 के अनुसार केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर श्री सुंदर सिंह यादव, भारतीय दूरसंचार सेवा: 1990, निदेशक को एतद्वारा आयोग में उनके कर्तव्यों से दिनांक 21.05.2014 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. इसके अलावा, श्री यादव को का. एवं प्रशि. विभाग की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों पर लागू 60 दिन की कार्यकाल समाप्ति छुट्टी दिनांक 22.05.2014 से दी जाती है। वे उक्त छुट्टी बिताने के बाद अपने मूल विभाग अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे।

बी.सी. पात्रा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

नई दिल्ली-110066, दिनांक 28 मई 2014

सं. I-17018/स्था. I/724/रा.आ.मो.बल/2014/6074—राष्ट्रपति, डॉ. महबूब आलम, भा.पु.से. (टीएन : 81) को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, गृह मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर, एचएजी वेतन स्केल रुपये 67,000—79,000/— पर, अखिल भारतीय सेवा नियमावली (मुत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभांश), 1958 के नियम 16(1) के तहत, दिनांक 31/05/14 के बाद से 31/08/14 तक अर्थात् तीन माह के लिए सहर्ष सेवा बढ़ोत्तरी करते हैं, जैसा कि गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 31012/4/2014—आईपीएस—दो दिनांक 16.05.2014 द्वारा सूचित किया गया है।

2. उक्त सेवा बढोत्तरी के फलस्वरूप, डॉ० महबूब आलम, भा०पु०सेवा (तमिलनाडु:81) महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल (अपर महानिदेशक के पद एवं वेतन) में 31/08/2014 तक की बढोत्तरी की जाती है जैसा कि गृह मंत्रालय के आदेश संख्या एक-21018/04/2013-आईपीएस-तीन दिनांक 26/05/14 द्वारा सूचित किया गया है।

संदीप राय राठौर, महानिरीक्षक
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं नागरिक सुरक्षा
मुख्यालय महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

आपदा प्रबन्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2014

सं. 44-12/2012-एन डी एम-।।-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.11.2013 के पत्र सं. 6/35/2013-ई ओ (एस एच-।) के अनुसार, श्री अनिल कुमार सांघी, आई.टी.एस. (1983) को दिनांक 03.12.2013 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) में संयुक्त सचिव (प्रशासन) के पद पर नियुक्त किया गया है।

आशीष कुमार पांडा, अवर सचिव (आपदा प्रबंधन-।।)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2014

सं. 13017/10/2013-अ.भा.से.(।)-केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान सरकार और कर्नाटक सरकार की सहमति से डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आईएएस (आरजे:04) की, उनके वैयक्तिक आधार पर राजस्थान संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में दो वर्ष की अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 13017/36/2010-अ.भा.से.(।)-भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल सरकार और गुजरात सरकार की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा श्री संजय एम कौल, आईएएस (केएल:01) की, केरल संवर्ग से गुजरात संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को वैयक्तिक आधार पर दो वर्षों तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 19 मई 2014

सं. 22012/80/2010-अ.भा.से.(।)-मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी ने सुश्री बीला राजेश, भारतीय प्रशासनिक सेवा (झारखण्ड : 97) के झारखण्ड संवर्ग से तमिलनाडु संवर्ग में अंतर संवर्ग स्थानांतरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2014

सं.14012/31/2011-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग के सदस्य श्री शरद कुमार द्विवेदी को दिनांक 29.08.2008 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2014

सं. 14015/26/2013-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची 2013 की रिक्तियों पर राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के मिजोरम खण्ड के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए, 23.12.2013 को विनियम 5 के अंतर्गत तैयार की गई तथा 03.04.2014 को विनियम 7(1) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नाम वाली मिजोरम गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :-

चयन सूची 2013 (01.01.2012 से 31.12.2012 के मध्य होने वाली रिक्तियों पर)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म-तिथि
1.	डॉ. ललरोजमा (अ.ज.जा.)	13.05.1968

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/26/2013-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची 2013 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में मिजोरम गैर-राज्य सिविल सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग में उनका आबंटन करते हैं :-

चयन सूची 2013 (01.01.2012 से 31.12.2012 के मध्य होने वाली रिक्तियों पर)

अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
डॉ. ललरोजमा (अ.ज.जा.)

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मई 2014

सं. ए-19012/01/2014 प्र.सु (प्रशा. I)—राष्ट्रपति, सुश्री वी. विद्यावती, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 91) को दिनांक 22.05.2014 के पूर्वाह्न से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

आलोक जगभरिया, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2014

सं. क्यू/पीबी-11/6616/21/2013—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात श्री अनिल गर्ग (जन्मतिथि 12.02.1954), इस मंत्रालय में पूर्व निजी सचिव, [भारतीय विदेश सेवा ('ख') के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-1 के अधिकारी] 28.02.2014 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राजीव अरोड़ा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-पीआर)

प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2014

सं. डी III /460/सी एफ-36/2011—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में नाइजर गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री अरुण नारायणदास लालवानी की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री अरुण नारायणदास लालवानी का कौंसली क्षेत्राधिकार मुम्बई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2014

सं. 2/3/2012-एडीबी-1—श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री, भारत सरकार को 27 मई, 2014 से श्री पी. चिदंबरम के स्थान पर एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया है।

जितेन्द्र मलिक, अवर सचिव

सं. 22/19/2012-एएफडीबी—श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री, भारत सरकार को 27 मई, 2014 से श्री पी. चिदंबरम के स्थान पर अफ्रीकी विकास बैंक और अफ्रीकी विकास निधि के गवर्नर बोर्ड में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया है।

जितेन्द्र मलिक, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 मई 2014

सं. ए. 12025/222/2009-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नौशिदा के. को 27.04.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रुपए 15600-39100/-) + रुपए 5400/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. नौशिदा के. को

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, कवरत्ति अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. नौशिदा के. अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2014

सं. 18-1/2011-आईएनएम--राष्ट्रपति, परीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने पर, डा. सी.एम. माधवन तथा डा. रविन्द्र यादव को स्थायी रूप से कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में क्रमशः 14.7.2012 (पूर्वाह्न) तथा 09.5.2012 (पूर्वाह्न) से पी.बी.-3 (रू. 15600-39100), 5400/- रू. की ग्रेड पे, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

भैरव दत्त, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110014, दिनांक 13 मई 2014

सं. ए.-11011/2/2014-स्थापना--राष्ट्रपति महोदय ने श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, भा.प्र.से (गुजरात-80) को 2 मई, 2014 के पूर्वाह्न से एवं अगले आदेशों तक पंचायती राज मंत्रालय में सचिव के तौर पर नियुक्त किया है।

आर. शिवा कुमार, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2014

सं. 11036/13/2009-पीसीएंडवी—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत तथा दिनांक 23.09.2013 एवं 31.03.2014 की मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11036/09/2009-पीसीएंडवी के आंशिक संशोधन में, सुश्री एल. रेंथली, सहायक निदेशक को उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम सं. 10 में दर्शाए गए विशेष मामलों तथा उन्हें आबंटित विषय के संबंध में श्री सौरभ दूबे- उप निदेशक के स्थान पर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

2. क्रम सं. 10 में मौजूदा प्रविष्टियों के बदले, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं, नामतः -

1	2	3	4	5
10.	सुश्री एल.रेंथली	सहायक निदेशक, कमरा सं. 238, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066	26182823 lalram@nic.in	1. योजना आयोग से संबंधित सभी मामले, 2. वित्त आयोग से संबंधित मामले, 3. महिलाओं के लिए बजट सहित बजट, 4. साकारात्मक कार्रवाई, 5. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम 6. बीस सूत्री कार्यक्रम

3. क्रम सं. 2 के मद्दे मौजूदा प्रविष्टियों, को इस प्रकार पढ़ा जाए:-

1	2	3	4	5
2.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव, कमरा सं. 217 सी, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110115	23073708 ahmnad2012@gmail.com	1. जनजातीय उपयोजना से संबंधित सभी मामले, 2. टीएसपी को एससीए, 3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1), 4. अनुसूचित जनजातियों के लिए कौशल विकास पहलों का समन्वय, 5. राज्यों द्वारा जनजातीय उपयोजना रणनीति का क्रियान्वयन

4. उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम सं. 10 पर दर्शाए गए स्थानांतरित, श्री सौरभ दूबे, उप निदेशक का नाम हटाया गया माना जाए।

आर.सी.ध्यानी, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 20 मई 2014

सं. ए-22012/3/2006-स्था. (खंड-II)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2011-सीएस. आई (यू) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) ग्रेड-I (अवर सचिव) की वर्ष 2009 की चयन सूची में श्री के. डी. सिंह का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री के. डी. सिंह को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 26 नवम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव (सीएसएस सं० 6510) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

दिनांक 21 मई 2014

सं. ए-12023/1/99-स्था. (खण्ड-II)—हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के कार्यालय आदेश सं. 32012/1/97-डीसीएच/स्था.-II के तहत इस मंत्रालय में प्रत्यावर्तन होने पर श्रीमती प्रीति कुमार, सहायक निदेशक को 2 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय की नामावली में शामिल कर लिया गया है।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 1 मई 2014

सं. 4(932)/14-का.1—राष्ट्रपति जी ने डॉ. आतिफ फेज़ खान (कर्मचारी कोड सं. 1107) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 01.05.2014 के पूर्वाह्न से 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 25,350/- रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

सं. 4(934)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने श्रीमती मंजुषा चौरसिया (कर्मचारी कोड सं. 1109) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 01.05.2014 के पूर्वाह्न से 6,600/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 25,350/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

सं. 4(935)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने श्री मयंक (कर्मचारी कोड सं. 1108) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 01.05.2014 के पूर्वाह्न से 6,600/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 25,350/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

सं. 4(933)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने डॉ. संजीव कुमार गुप्ता (कर्मचारी कोड सं. 1110) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 01.05.2014 के पूर्वाह्न से 6,600/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 25,350/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 7 मई 2014

सं. 4(936)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने श्री विनोद कुमार चौहान (कर्मचारी कोड सं. 1111) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 07.05.2014 के पूर्वाह्न से 6,600/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 25,350/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 15 मई 2014

सं. 4(937)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने श्री संतोष कुमार सोनी (कर्मचारी कोड सं. 1112) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 15.05.2014 के पूर्वाह्न से 7,600/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 29,500/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 20 मई 2014

सं. 4(938)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने श्री अजय कुमार (कर्मचारी कोड सं. 1113) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 16.05.2014 के पूर्वाह्न से 5,400/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 21,000/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 21 मई 2014

सं. 4(939)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने श्री ओम पाल (कर्मचारी कोड सं. 1114) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 21.05.2014 के पूर्वाह्न से 6,600/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 25,350/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

दिनांक 26 मई 2014

सं. 4(940)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने श्री सुशील कुमार नेहरा (कर्मचारी कोड सं. 1115) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 23.05.2014 के अपराह्न से 7,600/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 29,500/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

सं. 4(941)/14-का. I—राष्ट्रपति जी ने डॉ. धवल गुप्ता (कर्मचारी कोड सं. 1116) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 23.05.2014 के अपराह्न से 7,600/— रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रु. के वेतन बैंड-3 में अस्थायी तौर पर वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त किया है।

2. वे उपर्युक्त वेतन बैंड में 29,500/— रु. (ग्रेड वेतन सहित) और समय-समय पर नियमों और आदेशों के अनुसार मिलने वाले भत्ते आहरित करेंगे।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

विनोद कुमार, उप निदेशक

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 27 मई 2014

सं. 1(1)2013-पीए(टी.ए): राष्ट्रपति महोदय ने मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को वेतन बैंड -3 ₹ 15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400/- में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्त किया है।

1. श्री नकुल अग्रवाल 06.05.2014 (पूर्वाहन)
 2. श्री अविनाश मेहतो 26.05.2014 (पूर्वाहन)
2. उपरोक्त अधिकारी वैज्ञानिक 'बी' के पद पर नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

एस. रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2014

सं. ईआरबी-1/2014/2/24--राष्ट्रपति जी, श्री वी. के. जैन, एचएजी/आईआरएसई, अतिरिक्त महानिदेशक, आर.डी.एस.ओ., लखनऊ की ग्रेड ₹ 75,500-80,000 में पदोन्नति होने पर उन्हें 16.04.2014 के पूर्वाहन से अपर सदस्य (निर्माण), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 21 मई 2014

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री आर. कश्यप, वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री एस. के. जैन, सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री पी.एस. चौहान, उप निदेशक, रेलवे बोर्ड, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2014 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 26 मई 2014

सं. ई आर बी-1/2014/2/37—राष्ट्रपति जी, श्री वी. के. गुप्ता, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा, महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे को 12.05.2014 के अपराह्न से सदस्य (इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
रेलवे बोर्ड

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय, मध्य रेल

मुंबई, दिनांक मई 2014

संख्या: लेप/प्रशासन--निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारियों के उनकी पदोन्नति की तिथि उनका नाम के विरुद्ध दर्शायी गयी है।

क्रमांक	नाम	पदनाम	राजपत्रित अधिकारी पद पर नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीमती वंदना दलाल	सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी	02-08-2013
2.	श्री एस.टी.मोंडेकर	सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी	01-01-2014
3.	श्री शंभाजी कणसे	सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी	01-01-2014
4.	श्री बी.आर.सौंदर्या	सहा.लेखापरीक्षा अधिकारी	01-01-2014

कल्पना अ सामंत, लेखा परीक्षा अधिकारी/(प्रशासन)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2014

सं. ए-23021/1/2013-प्रशा.II:- राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25/09/2013 के का.जा.सं. 6/2/2013-सीएस-I(एस)-I, 6/2/2013-सीएस-I(एस)-II, 6/2/2013-सीएस-I(एस)- III, के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत वर्ष 2009, 2010 और 2011 के लिए अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची में नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों, जो इस समय तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/ सुश्री)	वर्तमान/ पिछला कार्यालय	चयन सूची वर्ष में शामिल
1	2	3	4
1.	सुनील भाटिया	आकाशवाणी महानिदेशालय	2009
2.	वी.के. कोहली	आकाशवाणी महानिदेशालय	2009
3.	स्नेह कालिया	दूरदर्शन महानिदेशालय	2009
4.	एस.के. उपाध्याय	मुख्य सचिवालय	2009

1	2	3	4
5.	टी.एन. गुप्ता	दूरदर्शन महानिदेशालय	2009
6.	विपिन कुमार जैन	दूरदर्शन महानिदेशालय	2009
7.	वी.पी. सिंह	मुख्य सचिवालय	2009
8.	राकेश कुमार सिन्हा	मुख्य सचिवालय	2009
9.	प्रवीण कुमार झा	मुख्य सचिवालय	2009
10.	शोभा लाल	मुख्य सचिवालय	2009
11.	राम बचन	आकाशवाणी महानिदेशालय	2009
12.	एम.एस. सिन्हा	दूरदर्शन महानिदेशालय	2009
13.	कमलेश मक्कड़	मुख्य सचिवालय	2010
14.	सुधीर उपाध्याय	आकाशवाणी महानिदेशालय	2010
15.	शशि चौधरी	मुख्य सचिवालय	2010
16.	नंदन सिंह	मुख्य सचिवालय	2010
17.	देविन्द्र कौर कांग	डीपीडी	2010
18.	प्रमोद जैन	आकाशवाणी महानिदेशालय	2010
19.	के.बी. खट्टर	डीपीडी	2010
20.	रामेश्वर	डीपीडी	2011
21.	राम राज गुप्ता	दूरदर्शन महानिदेशालय	2011
22.	राजिन्द्र सिंह	आकाशवाणी महानिदेशालय	2011
23.	करन सिंह	दूरदर्शन महानिदेशालय	2011
24.	डी.एस. मीणा	दूरदर्शन महानिदेशालय	2011
25.	चन्दर राम मीणा	आकाशवाणी महानिदेशालय	2011
26.	प्रभा अग्रोयी	दूरदर्शन महानिदेशालय	2011
27.	सुरेश बहल	मुख्य सचिवालय	2011
28.	कान्ता कुमारी	दूरदर्शन महानिदेशालय	2011
29.	नरेश कुमार	पीआईबी	2011

2. ये अधिकारी आगामी आदेशों तक अपने समक्ष यथाउल्लिखित वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही कार्य करते रहेंगे।

3. इसके अतिरिक्त, संबंधित चयन सूची वर्ष में उनका शामिल होना, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

एस.एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 28 अप्रैल 2014

सं.ए-23021/1/2013-प्रशा.॥--राष्ट्रपति जी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के का.जा. सं. 6/2/2013 - सीएस.१(एस)-॥ के द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के वरीयता कोटे के अंतर्गत वर्ष 2011 की अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची में वर्तमान में पत्र सूचना कार्यालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत इस मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के नियमित सहायक (1996/073) श्री सुरेन्द्र कुमार को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें वर्ष 2011 की चयन सूची के अंतर्गत नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त उनकी नियुक्ति वर्ष 2011 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनका नाम शामिल किया जाना डीओपीटी के उपर्युक्त का.जा. में विनिर्धारित शर्तों के अधीन है।

एस.एस. बेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2014

सं. ए-22013/4/2012-प्रशा.॥--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2013 के आदेश संख्या 5/8/2013-सीएस.१(यू) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी-१ अधिकारी (अवर सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर उनकी पदोन्नति होने और तत्पश्चात इस मंत्रालय में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्रेणी-१ (अवर सचिव) में 6600/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15600-39100/- रु. के वेतनमान में दिनांक 31.05.2014 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस मंत्रालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तारीख से नियुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, पदोन्नति होने पर इन अधिकारियों को इस मंत्रालय में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित कार्यालय में तैनात किया जाता है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/श्री/सुश्री)	सीएसएल संख्या	पूर्व मंत्रालय/ विभाग	स्. और प्र. मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यालय
1.	संजय जायसवाल	8272	शहरी विकास	31/12/2013 (पूर्वाहन)	वरिष्ठ ए.ओ. के रूप में सीबीएफसी, मुम्बई
2.	सोनिका खट्टर	8326	वाणिज्य	27/12/2013 (अपराहन)	अवर सचिव (डीएस) के रूप में मुख्य सचिवालय
3.	गोपाल	8338	भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	26/12/2013 (पूर्वाहन)	डीडीए के रूप में डीपीडी

2. इसके अतिरिक्त, उनकी तदर्थ पदोन्नति उपर्युक्त के संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2013 के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

भास्कर बंदोपाध्याय, अवर सचिव

दिनांक 14 मार्च 2014

सं. ए-22012/6/2012-प्रशा. II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.03.2014 के आदेश सं. 3/01/2011-सीएस-I(डी) के तहत नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर चयन ग्रेड (निदेशक) में पदोन्नति के परिणामस्वरूप, इस मंत्रालय में चयन ग्रेड (उप सचिव) में पदस्थ सुश्री गीता सुंदरराजन (सीएसएल सं. 4294) को दिनांक 07.03.2014 अर्थात् प्रवर चयन ग्रेड (निदेशक) में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पीबी-4, 37,400-67,000/- रु. सहित ग्रेड पे 8700/- रु. में इस मंत्रालय में प्रवर चयन ग्रेड (निदेशक) में नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री गीता सुंदरराजन को एतद्वारा दिनांक 07.03.2014 से मुख्य सचिवालय में निदेशक (वित्त) के रूप में पदनामित किया जाता है।

भास्कर बंद्योपाध्याय, अवर सचिव

दिनांक: 7 अप्रैल, 2014

सं. 5/1/2011-प्रशा. II--राष्ट्रपति जी, वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर कार्यरत डॉ. राकेश कुमारी की राजभाषा विभाग के दिनांक 24.12.2013 के कार्यालय आदेश सं. 5/3/2013-रा.भा.(से.) के तहत ग्रेड वेतन 6600/-रु.+15,600-39,100/रु. के वेतनमान में उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियमित पदोन्नति किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के अंतर्गत नियमित आधार पर उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

भास्कर बंद्योपाध्याय, अवर सचिव

दिनांक 17 अप्रैल 2014

सं. 6/2/2007-प्रशा. II--राष्ट्रपति, श्री राघवेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. (पश्चिम बंगाल : 1983), संयुक्त सचिव (फिल्म) को संयुक्त सचिव (फिल्म) के स्तरान्त हुए पद पर अपर सचिव के रूप में दिनांक 16.4.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

भास्कर बंद्योपाध्याय, अवर सचिव

दिनांक 12 मई 2014

सं. ए-22012/6/2012-प्रशा. II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30/04/2014 के आदेश सं. 3/01/2011-सीएस-I(डी) के तहत इस मंत्रालय में चयन ग्रेड (उप सचिव) में पदस्थ श्री सी.एस. कौशिक (सीएसएल सं. 4423) की केंद्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर चयन ग्रेड (निदेशक) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 30.04.2014 अर्थात् प्रवर चयन ग्रेड (निदेशक) में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस मंत्रालय में पीबी-4, ग्रेड पे 8700/- रु. सहित 37,400-67,000/- रु. में प्रवर चयन ग्रेड (निदेशक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सी.एस. कौशिक को एतद्वारा दिनांक 30.04.2014 से मुख्य सचिवालय में निदेशक (एफएम) के रूप में पदनामित किया जाता है।

भास्कर बंद्योपाध्याय, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2014

संख्या ए-31014/01/2009-आईएसएच-II:--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के कार्यालय में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से मूल रूप से नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम सर्व/श्री	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने की तिथि	स्थायीकरण प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	अफताब अहमद	उप निदेशक, खान सुरक्षा (खनन)	04.06.12	03.06.13	04.06.13
2.	एसएस सोनी	-वही-	07.02.12	06.02.13	07.02.13
3.	सगेश कुमार एम.आर.	-वही-	13.04.12	12.04.13	13.04.13
4.	कृष्णेन्दु मंडल	-वही-	01.08.12	31.07.13	01.08.13
5.	अवनीश कुमार मिश्रा	-वही-	15.12.11	14.12.12	15.12.12
6.	नव प्रकाश देवरी	-वही-	09.03.12	08.03.13	09.03.13
7.	मोहम्मद नियाजी	-वही-	19.03.12	18.03.13	19.03.13
8.	इरफान अहमद अंसारी	-वही-	08.05.12	07.05.13	08.05.13
9.	मुकेश कुमार सिन्हा	-वही-	09.04.12	08.04.13	09.04.13
10.	उमेश कधुकर राव सवाकर	-वही-	04.05.12	03.05.13	04.05.13
11.	बी. दयासागर	-वही-	22.06.12	21.06.13	22.06.13
12.	अलताफ हुसैन अंसारी	-वही-	09.05.12	08.05.13	09.05.13
13.	विनोद रजक	-वही-	30.08.12	29.08.13	30.08.13
14.	मनोज कुमार साहू	-वही-	02.04.12	01.04.13	02.04.13
15.	रवीन्द्र कंदकातला	-वही-	21.06.12	20.06.13	21.06.13
16.	योहन येजरला	-वही-	20.04.12	19.04.13	20.04.13
17.	मनोज कुमार गुप्ता	-वही-	15.02.12	14.02.13	15.02.13
18.	बालासुब्रमन्यम नसिना	-वही-	16.07.12	15.07.13	16.07.13
19.	सुरजीत कटेवा	-वही-	27.04.12	26.04.13	27.04.13
20.	श्याम मिश्रा	-वही-	05.07.12	04.07.13	05.07.13

1	2	3	4	5	6
21.	नमवरपु नागेश्वरराव	-वही-	09.08.12	08.08.13	09.08.13
22.	राजेश कुमार सिंह	-वही-	17.07.12	16.07.13	17.07.13
23.	अशोक कुमार	-वही-	06.07.12	05.07.13	06.07.13
24.	एस. पुट्टाराजू	उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत)	27.01.12	26.01.13	27.01.13
25.	विश्वनाथ बेहरा	-वही-	30.01.12	29.01.13	30.01.13
26.	पलानीमलाई सी.	-वही-	21.02.12	20.02.13	21.02.13
27.	प्रकाश कुमार	-वही-	26.03.12	25.03.13	26.03.13
28.	आनंद कुमार	-वही-	26.03.12	25.03.13	26.03.13
29.	राजकुमार	-वही-	23.04.12	22.04.13	23.04.13
30.	एम. अरुमुगम	उप निदेशक, खान सुरक्षा (मैकेनिकल)	19.06.12	18.06.13	19.06.13
31.	सुधीर गणपतराव भाईसारे	-वही-	12.06.12	11.06.13	12.06.13
32.	संदीप श्रीवास्तव	-वही-	05.09.12	04.09.13	05.09.13
33.	विजय कुमार के.	-वही-	06.08.12	05.08.13	06.08.13

बी. एल. मीणा, उप सचिव

PLANNING COMMISSION
(UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA)

New Delhi-110001, the 21st May 2014

No. A-19011/115/14-UIDAI--In pursuance of Unique Identification Authority of India (UIDAI), Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(DD/HQ)/11-UIDAI dated 22.04.2014 and O/o the Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member Audit Board Chennai's, relieving Order No. PDCA/ADMIN.VII/7-24/2014-15/11 dated 29.04.2014, Shri K. Dilip Raj has assumed the charge of the post of Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 12.05.2014 (F/N) in the Pay Band of Rs.15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on deputation basis for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Dy. Director (Estt)

New Delhi-110001, the 23rd May 2014

No. A-19011/116/14-UIDAI--In pursuance of approval of Appointments Committee of the Cabinet conveyed by the Department of Personnel & Training vide O.M No. 7/5/2011-EO (SM-I) dated 01.05.2014 and Ministry of Women & Child Development Notification No. 3-2/2010-Admn dated 16th May 2014, Dr. Shreeranjana, IAS (AM:85) has assumed the charge of Deputy Director General in HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f 19.05.2014 (F/N) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/- for a period upto 18.05.2016 or until further orders, whichever is earlier.

S. D. SHARMA, Assistant Director General (Estt.)

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 28th April 2014.

No. A-12025/1/2009-Admn.111--The President is pleased to appoint Shri M. M. S. Rawat in National Sample Survey Office (Field Operations Division), Hqrs. to the post of Deputy Director(Administration) on deputation basis in National Sample Survey Office (Field Operations Division), Hqrs, New Delhi with effect from 13.12.2013 for a period of three years i.e upto 14.12.2016 until further orders.

A. K. MISHRA, Director

CORRIGENDUM

New Delhi-110001, the 8th May 2014.

No. A-12025/1/2009-Admn.II--In the Notification of even number dated 28.4.2014 due to typographical error, the date has been indicated as 14.12.2016 which may kindly be read as '12.12.2016'.

Inconvenience caused is regretted.

S. K. ROY, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi 110001, the 21st May 2014

No.A-19/G-A/III--On completion of term of deputation under Central Staffing Scheme in accordance with DoP&T's OM No.14/3/2012-EO(MM.I), dated 25.09.2012 Shri Sunder Singh Yadav, ITS:1990, Director, is hereby relieved of his duties in the Commission, w.e.f 21.05.2014(A/N).

2. Further, Sh. Yadav is granted 60 days' End of Tenure leave w.e.f 22.05.2014 as applicable to officers on deputation under Central Staffing Scheme of DoP&T. He will report to his parent department i.e. Department of Telecommunication, M/o Communication & IT after availing himself of the said leave.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE

New Delhi-110066, the 28th May 2014

No. I-17018/Estt-I/724/NDRF/2014/6075--The President is pleased to extend the service of Dr. Mahboob Alam, IPS (TN : 81) as Director General, National Disaster Response Force, Ministry of Home Affairs in the HAG Pay Scale of Rs .67,000--79,000/- for a period of three months beyond 31.05.2014 upto 31.08.2014 under Rule 16(1) of the AIS (DCRB) Rules,1958 as conveyed by MHA vide Order No.31012/4/2014 – IPS.II dated 16.05.2014.

2. Consequent upon above extension of service, the central deputation tenure of Dr. Mahboob Alam, IPS (TN:81) as Director General, National Disaster Response Force (in the pay and rank of Addl. DG) is extended up to 31.08.2014 as conveyed by MHA vide Order No.I-21018/04/2013- IPS-III dated 26.05.2014.

SANDEEP RAI RATHORE, Inspector General, NDRF & CD HQ DG NDRF

DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi, the 28th May 2014

No.44-22/2012-NDM-II--In pursuance of Department of Personnel and Training Communication No.6/35/2013-EO(SM-I) dated 06.11.2013, Shri Anil Kumar Sanghi, ITS(1983) has been appointed to the post of Joint Secretary (Admn.) in National Disaster Management Authority (NDMA) with effect from the forenoon of 03.12.2013, for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

ASHISH KUMAR PANDA, Under Secy.
(DM)-II

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 21st March 2014

No.13017/10/2013-AIS(I)--In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Rajasthan and the Government of Karnataka the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Dr Ravi Kumar Surpur, IAS (RJ:04) from Rajasthan cadre to Karnataka cadre, for a period of two years, on personal grounds.

S.S. SHUKLA, Under Secy.

No.13017/36/2010-AIS(I)----In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Kerala and Gujarat the Central Govt. hereby accords approval for the extension of inter cadre deputation of Shri Sanjay M Kaul, IAS (KL:01) from Kerala cadre to Gujarat cadre for a period of two years on personal grounds.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 6th May 2014

No.22012/80/2010-AIS-I---The Competent Authority has approved the proposal for inter cadre transfer of Ms. Beela Rajesh, IAS(JH:97) from Jharkhand cadre to Tamil Nadu cadre in compliance of the orders of the High Court of Madras.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 16th May, 2014.

No.14012/31/2011-AIS-III---In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Sharad Kumar Dwivedi, member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of West Bengal of 2006 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 29/08/2008.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 27th May 2014

No. 14015/26/2013-AIS (I)-A---In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service Officers of Mizoram containing the

following name prepared on 23rd December, 2013 under Regulation 5 and approved on 03.04.2014, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in AGMUT (Mizoram segment) cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2013:--

Select List of 2013(Against vacancies arisen between 1.1.2012 to 31.12.2012)

Name of the Officer	Date of Birth
Dr. Lalrozama (ST)	13.05.1968

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/26/2013-AIS (I)-B---In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the Non-State Civil Service of Mizoram to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2013, on probation until further orders and to allocate him to the AGMUT (Mizoram segment) Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2013(Against vacancies arisen between 1.1.2012 to 31.12.2012)

Name of the Officer (S/Shri)
Dr. Lalrozama (ST)

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 22nd May 2014

No.A-19012/01/2014-AR(Ad.I)---The President is pleased to appoint Ms V. Vidyavathi, IAS(KN:91) as Joint Secretary, Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from the forenoon of 22nd May, 2014.

ALOK JAGBHARIA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 4th March 2014

No. Q /PB-II/6616/21/2013----On attaining the age of superannuation, Shri Anil Garg [DoB : 12.02.1954], formerly Private Secretary [Grade I Stenographer in Stenographers' Cadre of IFS(B)] in this Ministry, retired from the Government Service in the afternoon of 28th February, 2014.

RAJEEV ARORA, Administrative Officer (PB-PR)

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 27th May 2014

No. DIII/460/CF-36/2011----The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr.Arun Naraindas Lalwani as the Honorary Consul of the Republic of Niger in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Arun Naraindas Lalwani comprises the territory of Mumbai, with the seat in Mumbai.

SANJEEV KHANDURI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
MULTILATERAL INSTITUTIONS DIVISION

New Delhi, the 29th May 2014

No.2/3/2012-ADB.I---Mr. Arun Jaitley, Minister of Finance, Government of India has been appointed India's Governor on the Board of Governors of the Asian Development Bank, with effect from 27th May 2014 vice Mr. P. Chidambaram.

JITENDER MALIK, Under Secy.

No.22/19/2012-AfDB—Mr. Arun Jaitley, Minister of Finance, Government of India has been appointed India's Governor on the Board of Governors of the African Development Bank and African Development Fund, with effect from 27th May 2014 vice Mr. P. Chidambaram.

JITENDER MALIK, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 27th May 2014

No.A-12025/222/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Naushida K. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15,600—39,100/-] + Grade Pay Rs.5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 27.04.2010 until further orders.Dr. Naushida K. is posted as Medical Officer under Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti. Dr. Naushida K. shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 3rd June 2014

No. 18-1/2011-INM—The President is pleased to appoint Dr. C. M. Mathavan and Dr. Ravindra Yadav substantively, on successful completion of probation period, to the post of Assistant Director in PB-3 (Rs. 15,600--39,100/-) with Grade Pay Rs. 5,400/-, GCS, Group "A", Gazetted, Non Ministerial in Central Fertilizer Quality Control & Training Institute, Faridabad, a subordinate office under the Department of Agriculture & Cooperation, w.e.f. 14.07.2012 (F/N) and 09.05.2012 (F/N) respectively.

BHERAV DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-110001, the 13th May 2014

No. A-11011/2/2014-Estt—The President is pleased to appoint Smt. Vijaylaxmi Joshi, IAS (GJ. : 80) as Secretary in the Ministry of Panchayati Raj w.e.f. the forenoon of 2nd May, 2014 and until further orders.

R. SHIVA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th May 2014

No. 11036/13/2009-PCV—In partial modification of this Ministry's Notification No. 11036/09/2009-PC&V dated 23.09.2013 and 31.03.2014, and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Ms. L. Renthlei, Assistant Director is hereby designated as Central Public Information Officer in place of Shri Saurabh Dubey, Deputy Director in respect of Subject allocated to him and the specific matters indicated against S. No. 10 of the above mentioned notification.

2. For the existing entries against Sl. No. 10, the following entries shall be substituted, namely:--

1	2	3	4	5
1.	Ms. L. Renthlei	Assistant Director, Room No. 238, August Kranti Bhawan, Bikaji Cama Place, New Delhi- 110066	26182823 lalram@nic.in	1. All Matters relating to Planning Commission. 2. Matters pertaining to Finance Commission. 3. Budget including Gender Budgeting. 4. Affirmative Action. 5. National Common Minimum Programme. 6. 20 Point Programme.

3. The existing entries against Sl. No. 2, may be read as under:--

2.	Shri Nadeem Ahmed	Under Secretary, Room No. 217 C, 'D' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi- 110115	23073708 ahmnad2012@gmail.com	1. All Matters relating to Tribal Sub Plan. 2. SCA to TSP 3. Article 275 (1) of the Constitution of India. 4. Coordination of Skill Development initiatives for STs. 5. Operationalization of Tribal Sub Plan strategy by the States.
----	-------------------	--	--	---

4. The name of Shri Saurab Dubey, Deputy Director, since transferred indicated against S. No. 10 in the above mentioned notification may be treated as deleted.

R. C. DHYANI, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 20th May 2014

No. A-22012/3/2006-Estt.(Vol-II)—Consequent upon inclusion of the name of Shri K.D. Singh in the Select List for the year 2009 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide DoP&T Office Memorandum No. 5/11/2011-CS.I(U) dated 26th November, 2012, the President is pleased to appoint Shri K.D. Singh as Under Secretary of CSS (CSL No. 6510) in the Ministry of Minority Affairs w.e.f. 26th November, 2012(F/N).

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

The 21st May 2014

No. A-12023/1/99-Estt.(Vol-II)—Consequent upon her repatriation to this Ministry from Office of Development Commissioner for Handlooms vide their Office Order No. 32012/1/97-DCH/Estt-I dated 22nd April, 2014, Smt. Priti Kumar, Assistant Director is taken on the rolls of this Ministry w.e.f. 2nd May, 2014 (F/N).

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 1st May 2014

No. 4(932)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Dr. Atif Faiz Khan (E.Code-1107) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 01.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 25,350/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

No. 4(934)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Smt. Manjusha Chourasia (E.Code-1109) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 01.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 25,350/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

No. 4(935)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Mayank (E.Code-1108) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 01.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 25,350/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

No. 4(933)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Dr. Sanjeev Kumar Gupta (E.Code-1110) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 01.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 25,350/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

The 7th May 2014

No. 4(936)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Chouhan (E.Code-1111) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 07.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 25,350/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

The 15th May 2014

No. 4(937)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Soni (E.Code-1112) as Scientist 'D' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 15.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 29,500/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

The 20th May 2014

No. 4(938)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar (E.Code-1113) as Scientist 'B' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 16.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 21,000/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

The 21st May 2014

No. 4(939)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Om Pal (E.Code-1114) as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the forenoon of 21.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 25,350/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

The 26th May 2014

No. 4(940)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar Nehra (E.Code-1115) as Scientist 'D' in the Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the afternoon of 23.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 29,500/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

No. 4(941)/14-Pers.I—The President is pleased to appoint Dr. Dhawal Gupta (E.Code-1116) as Scientist 'D' in the Pay Band-3, Rs. 15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in a temporary capacity in the Department of Electronics & Information Technology with effect from the afternoon of 23.05.2014.

2. He will draw pay of Rs. 29,500/- (including Grade Pay) in the above Pay Band and allowances as admissible under the rules and orders in force from time to time.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

VINOD KUMAR, Dy. Director

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 27th May 2014

No. 1(1)/2013-PA(TA)--The President is pleased to appoint the following as Scientist 'B' in STQC Directorate, Department of Electronics and Information Technology in the Pay Band-3 of Rs.15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5400/-.

1. Shri Nakul Agarwal w.e.f. 6-5-2014 (F/N)

2. Shri Avinash Mahto w.e.f. 26-5-2014 (F/N)

2. The above officers shall be on probation for a period of one year from the date of their appointment as Scientist 'B'.

S. RAMAKRISHNAN, Jt. Director

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 5th May 2014

No. ERB-I/2014/2/24--The President is pleased to appoint Shri V. K. Jain, HAG/IRSE, Additional Director General, RDSO, Lucknow as Additional Member (Works), Railway Board on promotion to Grade Rs. 75,500--80,000/- with effect from forenoon of 16.04.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

The 21st May 2014

No.ERB-I/2007/10/4--Shri R. Kashyap, Financial Commissioner, Railways and ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 30.04.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No.ERB-I/2007/10/4--Shri S. K. Jain, Member Engineering, Railway Board and Ex-Officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 30.04.2014, on attaining the age of superannuation.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No.ERB-I/2007/10/4--Shri P.S.Chauhan, Deputy Director, Railway Board retired from service with effect from the afternoon of 30.04.2014, on attaining the age of superannuation.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

The 26th May 2014

No. ERB-I/2014/2/37--The President is pleased to appoint Shri V.K. Gupta, IRSE , General Manager, Northern Railway, as Member (Engineering) Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India w.e.f. afternoon of 12.05.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

OFFICE OF THE PR. DIRECTOR OF AUDIT, CENTRAL RLY

Mumbai, the May 2014

No. Au/Admn.--The following Officers are promoted as Gazetted officers with effect from the date shown against their names:--

Sr. No.	Name and Designation	Date of promotion as Gazetted Officer
1	Smt Vandana Dalal, Asstt. Audit Officer	02/08/2013
2	Shri S.T.Moundekar, Asstt. Audit Officer	01/01/2014
3	Shri Sambhaji L. Kanse, Asstt. Audit Officer	01/01/2014
4	Shri B.R.Sondhiya, Asstt. Audit Officer	01/01/2014

KALPANA A. SAMANT, Audit Officer/Admn.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th January 2014

No. A-23021/1/2013-Admn. II--Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade for the years 2009, 2010 and 2011 against Seniority Quota of CSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting vide DoPT's O.Ms. No. 6/2/2013-CS-I (S)-I, 6/2/2013-CS-I (S)-II and 6/2/2013-CS-I (S)-III dated 25/09/2013, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS cadre of this Ministry, who are presently working as Section

Officer on ad-hoc basis, as Section Officers on regular basis in Ministry of Information & Broadcasting as per details mentioned below:--

Sl. No.	Name (S/Sh./Ms.)	Present / Last Office	Included in the Select List Year
1.	Sunil Bhatia	DG:AIR	2009
2.	V.K. Kohli	DG:AIR	2009
3.	Sneh Kalia	DG:DD	2009
4.	S.K. Upadhyay	MS	2009
5.	T.N. Gupta	DG:DD	2009
6.	Vipin Kumar Jain	DG:DD	2009
7.	V.P. Singh	MS	2009
8.	Rakesh Kumar Sinha	MS	2009
9.	Praveen Kumar Jha	MS	2009
10.	Shobha Lal	MS	2009
11.	Ram Bachan	DG:AIR	2009
12.	M.S. Sinha	DG:DD	2009
13.	Kamlesh Makkar	MS	2010
14.	Sudhir Upadhyay	DG:AIR	2010
15.	Shashi Chaudhary	MS	2010
16.	Nandan Singh	MS	2010
17.	Devinder Kaur Kang	DPD	2010
18.	Pramod Jain	DG:AIR	2010
19.	K.B. Khattar	DPD	2010
20.	Rameshwar	DPD	2011
21.	Ram Raj Gupta	DG:DD	2011
22.	Rajinder Singh	DG:AIR	2011
23.	Karan Singh	DG:DD	2011
24.	D.S. Meena	DG:DD	2011
25.	Chander Ram Meena	DG:AIR	2011
26.	Prabha Agroyee	DG:DD	2011
27.	Suresh Behl	MS	2011
28.	Kanta Kumari	DG:DD	2011
29.	Naresh Kumar	PIB	2011

2. They shall continue to work in their present place of posting as mentioned above against each until further orders.

3. Further, their inclusion in respective select list year is subject to the conditions as laid down in DoPT's O.Ms. referred to above.

S.S. BEDI, Under Secy.

The 28th April 2014

No. A-23021/1/2013-Admn. II--Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2011 against Seniority Quota of CSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting vide DoPT's O.M. No. 6/2/2013-CS-I (S)-III dated 25/09/2013, the President is pleased to appoint Shri Surender Kumar, regular Assistant [1996/073] of CSS cadre of this Ministry, presently working as Section Officer on ad-hoc basis in Press Information Bureau, as Section Officer on regular basis for the select list year 2011.

2. Further, his appointment/inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2011 is subject to the conditions as laid down in DoPT's O.M. referred to above.

S.S. BEDI, Under Secy.

New Delhi, the 8th January 2014

No. A-22013/4/2012-Admn. II--Consequent upon their promotion to the Grade-I officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis vide DoPT's Order No. 5/8/2013-CS. I (U) dated 24/12/2013 and subsequent nomination to this Ministry, the President is pleased to appoint the under mentioned Section Officer of Central Secretariat Service cadre to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service cadre of this Ministry in the pay scale of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- for a period upto 31/05/2014 or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier, with effect from the date of their joining in this Ministry as mentioned against each. Further, on such promotion, these officers are posted in the undermentioned offices of this Ministry as mentioned against each:--

Sl. No.	Name (S/Sh/Ms)	CSL No.	Previous Ministry/Deptt.	Date of joining in M/o I&B	Posted in the Office
1.	Sanjai Jaiswal	8272	Urban Development	31/12/2013 (F/N)	CBFC, Mumbai, as Sr. A.O.
2.	Sonika Khattar	8326	Commerce	27/12/2013 (A/N)	Main Sectt. as US (DAS)
3.	Gopal	8338	O/o RNI M/o I&B	26/12/2013 (F/N)	DPD as DDA.

2. Further, their ad-hoc promotion is subject to the conditions as laid down in DoPT's Order dated 24/12/2013 referred to above.

BHASKAR BANDYOPADHYAY, Under Secy.

The 14th March 2014

No. A-22012/6/2012-Admn. II--Consequent upon her promotion to the Senior Selection Grade (Director) of Central Secretariat Service on regular basis for the year 2013 vide DoPT's Order No. 3/1/2011-CS-I (D) dated 07/03/2014, the President is pleased to appoint Ms. Geetha Sundararajan, [CSL No. 4294], posted as Selection Grade (Deputy Secretary) in this Ministry, as Senior Selection Grade (Director), in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 07/03/2014, i.e. the date of assumption of the charge as Senior Selection Grade (Director).

2. Ms. Geetha Sundararajan is hereby designated as Director (Finance) in the Main Sectt. w.e.f. 07/03/2014.

BHASKAR BANDYOPADHYAY, Under Secy.

The 7th April 2014

No. 5/1/2011-Admn. II--Consequent upon her regular promotion to the post of Deputy Director (Official Language) in the pay scale of Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 6600/- vide D/o Official Language's Office Order No. 5/3/2013-OL(S) dated 24/12/2013, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh Kumari, presently working in M/o Information & Broadcasting as Deputy Director (Official Language) on ad-hoc basis, as Deputy Director (Official Language) on regular basis for the vacancies of year 2011-12.

BHASKAR BANDYOPADHYAY, Under Secy.

The 17th April 2014

No. 6/2/2007-Admn. II--The President is pleased to appoint Shri Raghvendra Singh, IAS (WB: 1983), Joint Secretary (Films) as Additional Secretary (Films) against the upgraded post of Joint Secretary (Films), w.e.f. 16/04/2014 (F/N) and until further orders.

BHASKAR BANDYOPADHYAY, Under Secy.

The 12th May 2014

No. A-22012/6/2012-Admn. II--Consequent upon his promotion to the Senior Selection Grade (Director) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis vide DoPT's Order No. 3/1/2011-CS-I (D) dated 30/04/2014, the President is pleased to appoint Shri C.S. Kaushik [CSL No.-4423], Selection Grade (Deputy Secretary) in this Ministry, as Senior Selection Grade (Director) in this Ministry, in PB-4, Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 8700/- with effect from 30/04/2014, i.e. the date of assumption of the charge as Senior Selection Grade (Director).

2. Shri C.S. Kaushik is hereby designated as Director (FM) in the Main Sectt. w.e.f. 30/04/2014.

BHASKAR BANDYOPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 20th May 2014

No. A-31014/01/2009-ISH.II--The President is pleased to appoint the following officers to the posts mentioned against their names in the office of Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the date indicated against the name of each officer in a substantive capacity:--

Sl. No.	Name of officers S/Shri	Designation	Date of joining	Date of completion of probation period	Date of effect of confirmation
1	2	3	4	5	6
1.	Aftab Ahmed	Dy. Director of Mines Safety (Mining)	04.06.12	03.06.13	04.06.13
2.	SS Soni	-Do-	07.02.12	06.02.13	07.02.13
3.	Sagesh Kumar MR	-Do-	13.04.12	12.04.13	13.04.13
4.	Krishnendu Mondal	-Do-	01.08.12	31.07.13	01.08.13
5.	Awanish Kumar Mishra	-Do-	15.12.11	14.12.12	15.12.12
6.	Nava Prakash Deori	-Do-	09.03.12	08.03.13	09.03.13
7.	Mohammed Niyazi	-Do-	19.03.12	18.03.13	19.03.13
8.	Irfan Ahmed Ansari	-Do-	08.05.12	07.05.13	08.05.13
9.	Mukesh Kumar Sinha	-Do-	09.04.12	08.04.13	09.04.13
10.	Umesh Kadhukar Rao Sawakar	-Do-	04.05.12	03.05.13	04.05.13
11.	B Dayasagar	-Do-	22.06.12	21.06.13	22.06.13
12.	Altaf Hussain Ansari	-Do-	09.05.12	08.05.13	09.05.13
13.	Vinod Rajak	-Do-	30.08.12	29.08.13	30.08.13
14.	Manoj Kumar Sahoo	-Do-	02.04.12	01.04.13	02.04.13
15.	Ravinder Kandakatla	-Do-	21.06.12	20.06.13	21.06.13
16.	Yohan Yejerla	-Do-	20.04.12	19.04.13	20.04.13
17.	Manoj Kumar Gupta	-Do-	15.02.12		15.02.13

1	2	3	4	5	6
18	Balasubramanyam Nasina	Dy. Director of Mines Safety (Mining)	16.07.12	15.07.13	16.07.13
19	Surjit Katewa	-Do-	27.04.12	26.04.13	27.04.13
20	Shyam Mishra	-Do-	05.07.12	04.07.13	05.07.13
21	Namavrapu Nageshwarao	-Do-	09.08.12	08.08.13	09.08.13
22	Rajesh Kumar Singh	-Do-	17.07.12	16.07.13	17.07.13
23	Ashok Kumar	-Do-	06.07.12	05.07.13	06.07.13
24	S Puttaraju	Dy. Director of Mines Safety (Electrical)	27.01.12	26.01.13	27.01.13
25	Biswanath Behera	-Do-	30.01.12	29.01.13	30.01.13
26	Palanimalai C	-Do-	21.02.12	20.02.13	21.02.13
27	Prakash Kumar	-Do-	26.03.12	25.03.13	26.03.13
28	Anand Kumar	-Do-	26.03.12	25.03.13	26.03.13
29	Rajkumar	-Do-	23.04.12	22.04.13	23.04.13
30	M Arumugam	Dy. Director of Mines Safety (Mechanical)	19.06.12	18.06.13	19.06.13
31	Sudhir Ganpatrao Bhaisare	-Do-	12.06.12	11.06.13	12.06.13
32	Sandeep Shrivastava	-Do-	05.09.12	04.09.13	05.09.13
33	Vijaya Kumar K	-Do-	06.08.12	05.08.13	06.08.13

B.L. MEENA, Dy. Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
 N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in